

(घ) क्या भोपाल से प्रसारित 'आंगन कारकम' भी राजस्थान के लोगों के जीवन को चित्रित नहीं करता है; और

(ङ) जयपुरकेन्द्र से रुचिकर और प्रभावी कार्यक्रमों को प्रसारित करने सम्बन्धी सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :** (क) जयपुर दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र शाम को प्रतिदिन दो घंटे का कार्यक्रम और मुजह मप्ताह में पांच दिन (बुधवार और रविवार को छोड़कर) आध घंटे का प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

(घ) ऐसा अनुमान है कि यह संबंध कृषकों का सम्बोधित आध घंटे के उस कार्यक्रम के बारे में है जो जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर के दूरदर्शन प्रेषण केन्द्रों में मप्ताह में छः दिन टेलीकास्ट होता है। (भोपाल में कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर नहीं है)। छः कार्यक्रम में से, एक को विशेष रूप से प्रत्येक प्रेषण केन्द्र को निर्देशित किया जाता है और शेष कार्यक्रम सभी केन्द्रों के लिए एक समान हैं। एक समान कार्यक्रमों में अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान को भी स्थान मिलता है।

(ङ) फिलहाल तीनों प्रेषण केन्द्रों के लिए कार्यक्रम दिल्ली स्थित बेस प्रोडक्शन सेंटर में तैयार किए जाते हैं जिसे यथाशीघ्र जयपुर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

### Freedom of Press

5074. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of President of the All India Newspapers Editors' Conference which appeared in Hindustan Times dated 19th July, 1978 saying that some state Ministers had recently taken an unduly aggressive attitude towards the press and some State Ministers have threatened correspondents with dire consequences;

(b) if so, the reaction of the Government in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) These matters fall within the purview of State Governments. Such complaints can, however, be taken cognisance of by the Press Council when it is set up.

श्री राम सागर, संसद् सदन पर हमला

5075. श्री राम नरेश कुशावाहा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 18 जून, 1978 को वाराणसी में कबीर चौरा स्थान पर श्री राम सागर संसद् सदन पर किये गये हमले की जानकारी है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस हमले के पीछे उनका क्या उद्देश्य था ;

(ग) इस गैर-इंसानी कार्य के लिये जिम्मेदार लोगों को क्या सजा दी गई है ;